

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उपखण्ड (i)
PART II--Section 3--Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० १०] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी १९, १९६८/पौष २९, १८८९
No. 10] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 1968/PAUSA 29, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND
CO-OPERATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 19th January 1968

G.S.R. 148.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Northern Inter-Zonal Maize (Movement Control) Order, 1967, namely:—

1. This Order may be called the Northern Inter-Zonal Movement Control) Amendment Order, 1968.

2. In the Northern Inter-Zonal Maize (Movement Control) Order, 1967, in the proviso to clause 3, after item (c), the following item shall be inserted namely:—

“(d) the movement in bags of compounded Cattle Feeds (No. IS. 2052) and Poultry Feeds (No. IS. 1374).”

[No. 204(NMZ) (1)/995/67-PY, II.]

R. BALASUBRAMANTAN, Jt. Secy.

